



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक- 29.08.2022

### दिनांक-29.08.2022 को थाना पुलिस रामनगर द्वारा चोरी की एक मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त अतुल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी महोदय के निर्देशन में व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली महोदय के पर्यवेक्षण में थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व वाहन चेकिंग तलाश वाँछित अभियुक्त के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम अतुल श्रीवास्तव पुत्र कमला प्रसाद निवासी N -14 / 3 C – 28 सरायनन्दन सुन्दरपुर थाना चितईपुर जनपद वाराणसी आता दिखाई दिया। चेकिंग के दौरान गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि जो मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स मेरे पास है वह चोरी की है। यह मोटर साइकिल मैंने भदोही से चोरी किया था। वाहन संख्या यू0पी0 66 S 9032 को ई चालान एप पर चेक किया गया तो यह वाहन अभिषेक शुक्ला के नाम से रजिस्ट्रेशन है। अभिषेक शुक्ला से फोन से वार्ता किया गया तो अभिषेक शुक्ला ने बताया कि वाहन संख्या यू0पी0 66 एस 9032 का मैं वाहन स्वामी हूँ जिसके सम्बन्ध में मैंने थाना गोपीगंज में मु0अ0सं0-0119/2020 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त अतुल श्रीवास्तव उपरोक्त को उसके अपराध से बोध कराकर समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लेकर मु0अ0सं0-0161/2022 धारा 41/411/414 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

#### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 0161/2022 धारा 41/411/414 भादवि थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी का स्थान- ढुढ़राज पुलिया थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- 29/08/2022 समय 10.30 बजे

#### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0-0119/2020 धारा 379 भा0द0वि0 थाना गोपीगंज जनपद भदोही

#### विवरण अभियुक्त –

1. अतुल श्रीवास्तव पुत्र कमला प्रसाद निवासी N -14 / 3 C – 28 सरायनन्दन सुन्दरपुर थाना चितईपुर जनपद वाराणसी

विवरण बरामदगी माल- एक अदद मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स नम्बर UP 66 S 9032

#### गिरफ्तारी/ बरामदगी टीम थाना रामनगर वाराणसी :-

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. का0 प्रेमचन्द्र मौर्या थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 मदन सेन वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 पिन्टू प्रसाद थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त कार्यालय,  
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।